



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

10 अग्रहायण 1933 (श0)  
(सं0 पटना 731) पटना, बृहस्पतिवार, 1 दिसम्बर 2011

---

वित्त विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर 2011

सं0 को0प्र0स्था0-11/2011-10905-वि0—बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-2 के आलोक में बिहार भवन, नई दिल्ली में कार्यरत लेखा कार्यालय को कोषागार, बिहार भवन, नई दिल्ली तथा उस कार्यालय में पदस्थापित लेखा पदाधिकारी को बिहार भवन कोषागार, नई दिल्ली के कोषागार पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

2. स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियमों के आलोक में उपरोक्त संहिता के कार्यान्वयन हेतु समाहर्ता घोषित किया जाता है। कोषागार पदाधिकारी, बिहार भवन स्थानिक आयुक्त के अधीन कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन करेंगे।

3. बिहार भवन, नई दिल्ली में अवस्थित सरकारी कार्यालयों से संबंधित सभी कार्य जिनका निष्पादन लेखा कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली से हो रहा है, का निष्पादन पत्र निर्गत की तिथि से बिहार भवन कोषागार, नई दिल्ली के नाम से किया जायेगा। साथ ही समस्त लेखा का संधारण बिहार भवन कोषागार, नई दिल्ली द्वारा किया जायेगा। बिहार भवन के क्षेत्राधिकार में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नव घोषित बिहार भवन कोषागार से ही अपना सरकारी नगदी कारोबार करेंगे।

4. नव घोषित बिहार भवन कोषागार, नई दिल्ली का स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2054 (खजाना एवं लेखा प्रशासन), लघु शीर्ष-097 (खजाना स्थापना), उप शीर्ष-0001 (कोषागार) एवं विपत्र कोड नं0-N-2054000970001 से विकलित होगा।

5. स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली अपने क्षेत्र में अवस्थित सभी विभागों/कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेख नव घोषित कोषागार को उपलब्ध करा देंगे, जिनका नगदी कारोबार एतद् संबंधित कोषागार से ही किया जायेगा।

6. स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीगण को यह निदेश देंगे कि बिहार कोषागार संहिता' 2011 के नियम 70, 84 एवं 117 में निहित प्रावधानों के अनुसार वे अपने हस्ताक्षर का नमूना एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भेजें।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मिहिर कुमार सिंह,  
सचिव (व्यय)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 731-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>